

प्रेमनगर थानान्तर्गत घटित हत्या की घटना का हत्यारोपी रक्तरंजित चाकू (आलाकत्ल) सहित गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री दिनेश कुमार पी० महोदय के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर श्री विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18/10/2020 को थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं० 416/20 धारा 302 भादवि के अभियोग में नामजद वांछित अभियुक्त जितेन्द्र परिहार को रक्त रंजित आलाकत्ल चाकू आदि सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17/10/2020 को वादी श्री वृन्दावन साहू पुत्र दीं दयाल साहू निवासी मेन रोड हंसारी थाना प्रेमनगर झाँसी द्वारा सूचना डी गयी कि उनके साले श्री गोपाल साहू पुत्र स्व० दबोले साहू निवासी ग्वाल टोली हंसारी थाना प्रेमनगर की अभि जितेन्द्र परिहार द्वारा शराब के नशे में वादी के घर 0के बाहर बैठे साले उपरोक्त की गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया जिसकी मेडिकल कालेज झाँसी में दौराने इलाज झाँसी में मृतक घोषित कर दिया गया है। उपरोक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रेमनगर पर मु०अ०सं० 416/ धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। 20

अभियोग उपरोक्त में नामजद वांछित अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। इसी क्रम में आज दिनांक 18-10-20 को प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर श्री नित्रवेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रोडवेज परिवहन डिपोअभियुक्त जितेन्द्र परिहार गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त की कार्यालय हंसारी के सामने से/ निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल रक्त रंजित चाकू आदि को बरामद किया गया। थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

➤ गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

- 1- श्री नित्रवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर झाँसी।
- 2- का० शैलेन्द्र शुक्ला थाना प्रेमनगर झाँसी।
- 3- का० मोहन सिंह थाना प्रेमनगर झाँसी।
- 4- का० मनीष कुमार थाना प्रेमनगर झाँसी।